



Financial Inclusion: Issues in Cooperative Sector.

Avinash Champawat, IAS

**Registrar Cooperative Societies &
Director, Women and Child Development;
Govt of Chhattisgarh.**

Financial Inclusion

- Delivery of financial services at an affordable cost to vast sections of disadvantaged and low income groups

Objective

- Opening of Bank Accounts.
- Immediate credit facilities.
- Insurance facilities.
- Financial Advisory services, etc.

Financial Inclusion Services includes

- **Savings**
- **Credit**
- **Insurance**
- **Remittance facilities etc.**

Why Financial Inclusion ?

- High transactions costs of borrowers
- High transactions costs of savers
- High transactions costs of banks
- High risk cost
- Inappropriate products

Beneficiaries of Financial Inclusion

- Marginal Farmers
- Landless Farmers
- Oral Leases
- Self Employed
- Urban slum developers
- Migrants
- Minorities
- Social excluded groups
- Senior citizens
- Women

Measures for promoting financial inclusion

- **Products**

- ◆ No frill account

- ◆ KYC(know your customer) norms simplified

- ◆ KCC(kishan credit card)

Measures for promoting financial inclusion

- **Others**

- ◆ IT solution for financial inclusion
- ◆ Credit counseling and financial education
- ◆ Revamping of cooperative banks

Financial Inclusion in Different Co-Operative Activities

- ◆ Cooperative Banking
- ◆ Sugar Industry
- ◆ Dairy
- ◆ Marketing
- ◆ Fertilizer
- ◆ Consumer Goods
- ◆ Fisheries
- ◆ Housing, etc

Role of Co-Operative Banks in Facilitating Financial Inclusion


- ◆ Strong network in rural areas
- ◆ Local Staff for better service
- ◆ Better placed to understand & solve the problems in rural area
- ◆ Easy access to farmers & agriculture laborers
- ◆ Lending for rural business enterprises

Co-Operative Banking-

Chhattisgarh

- ◆ One State Cooperative Bank, 6 District Central Cooperative Banks & 1333 PACS/LAMPS(Primary Agriculture Credit Co-operative Society/Adim Jati Sewa Saharaki Samiti) involved for disbursement of Agriculture Loan
- ◆ SCB & DCCBs are working on CBS(Core Banking Solution) Platform
- ◆ Nearby, 1333 PACS will work on CBS Platform in the near future
- ◆ CBS process helps farmers for issuing of KCC
- ◆ This process control the financial irregularities & improves monitoring
- ◆ DBT(direct beneficiary transfer) process would be smoothened

Structure of Co-Operative Banking



CBS Modules

- ◆ Banking Module
- ◆ KCC Module
- ◆ Agriculture Loan Module
- ◆ Deposit Module
- ◆ Marketing Module
- ◆ DBT Module

Paddy procurement

- ◆ Paddy is procured in Chhattisgarh through 1333 PACS/LAMPS under 6 DCCBs by CG State Coop Marketing Federation.
- ◆ 11.76 lacks Farmers had sold their paddy in KMS 2014-15.
- ◆ Farmers receive their payments by account payee cheques.
- ◆ Loan recovery process is based on linking method.
- ◆ By the process of linking, the ratio of loan recovery is very high. By this way, the cooperative movement has established the nature of saving among members.

LAMPS & PACS in State

Name of DCCB's	Number of LAMPS	Number of PACS	Total
Raipur	31	309	340
Durg	27	155	182
Rajnandgaon	33	102	135
Jagdalpur	177	1	178
Bilaspur	51	247	298
Ambikapur	104	0	104
Raigarh (Apex Bank Branch)	53	43	96
Total	476	857	1333

Sugar Factories

- ◆ 03 Cooperative sugar factory were established from 2002-03 to 2008-09 in Chhattisgarh.
- ◆ Total membership in these factories are 33.65 thousand.
- ◆ Sugar factories purchase sugarcane from members and the amount paid directly to members through their Bank account.

Bachat Bank (Not a Bank, but act like one)

- In Chhattisgarh, of the 1333 PACS/LAMPS, 655 were operating Bachat banks in which 9.50 lacks members have deposited Rs. 498.00 crore.(2014-15)
- Saving accounts of Bachat Bank are operating by PACS.
- These Bachat Banks are situated in rural areas and even in badly effected LWE districts and serve a large number of poor and illiterate people.

Possibility of embezzlement/financial irregularities can not be ignored in Bachat Banks

Embezzlement-few instances among many


No.	Name of District	Name of Bachat Bank	Embezzlement Amount in Lakh Rupees
1	Dhamtari	Mohndi	13.82
2	Mahasamund*	Birkoni	132.00
3	Gariaband	Dulla	26.14
4	Gariaband*	Kondekera	220.00
5	Dantewara	Mokhpal	29.10
6	Dantewara**	Nakulnar	350.00
7	Bilaspur*	Ghutku	111.47

Reason of Embezzlement in Bachat Banks

- Lack of skilled and technical staff.
- Working without CBS.
- Negligence in following the KYC guidelines.
- Accounting procedure is poor
- Members having no experience of Banking
- Lack of proper fund management.

Instruction issued for proper management of Bachat Banks

- All Bachat Bank should maintain their own internal control system.
- Reconciliation of accounts should be maintained properly and done on a monthly basis.
- Preparation of book balance, general ledger and other accounting measure to be mandatorily done.

- 
- Instructions for proper investment in DCCBs.
 - Instruction for controlling imbalance of accounts.
 - Instruction to follow the cash retention limit up to 2% of total deposit.
 - Single member is allowed a daily maximum withdrawal limit of Rs. Ten thousand only.
 - No transaction can be made without passbook.
 - Instructions for properly maintaining of KYC for each account.
 - Process started for development of CBS

Multi State Credit Co-operative Society

- In Chhattisgarh, 35 such Societies are working in different districts.
- NOC is compulsory for any new Multi State Cooperative Society to work in the State.
- KYC guidelines to be mandatorily followed for members of Multi State Cooperatives .
- RCS has authorized Naib-Tehsildar/Tehsildar/SDM/ADM and Collectors to inspect all such Societies.
- Unless they furnish information in the Formats issued they cannot operate in the State.

Formats used for monitoring Bachat Bank & Multi-State Credit Cooperative Societies.

प्रपत्र - 02 (अ)

क्रं.	सदस्यता क्रमांक	अमानत जमाकर्ता का नाम व पता	राशि	जमा दिनांक	ब्याज दर	परिपक्वता अवधि	परिपक्वता राशि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

प्रपत्र - 02 (ब)

क्रं.	सदस्यता क्रमांक	ऋणी सदस्य का नाम	पता	ऋण की राशि	ऋण का उद्देश्य	ब्याज दर	किश्त की राशि	यदि किश्त की राशि जमा न की गई हो तो कालातीत राशि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									

“ प्रारूप ”

सहकारी संस्थाओं के सदस्यों/अमानतदारों की जानकारी


सहकारी संस्था का नाम	
सहकारी संस्था का पता	
सहकारी संस्था के बैंक खाते की जानकारी	
(अ) बैंक का नाम	
(ब) खाता क्रमांक	
सहकारी संस्था का पेन नं.	
सहकारी संस्था का टिन नं.	
जानकारी का वर्ष	

क्र.	संस्था के सदस्य/जमाकर्ता का नाम	पिता का नाम (व्यक्तिगत जानकारी की स्थिति में)	जन्मतिथि (व्यक्तिगत के लिए)	सदस्यता क्र./खाता क्र.		पहचान की जानकारी		पूर्ण पता (केवायसी के मापदंड अनुरूप)	जमा राशि	जमा दिनांक	ब्याज भुगतान की राशि	ब्याज भुगतान का दिनांक
				सदस्यता क्र.	खाता क्र.	जमाकर्ता का पेन नं.	पहचान पत्र का प्रकार/क्रमांक					

Computerization of Interest subsidy scheme

- The scheme of interest subsidy is playing an important role in financial inclusion through Cooperative sector.
- In our State, this is implemented through the three tier co-operative structure i.e. SCB—DCCCB—PACS under the overall supervision of RCS.
- State government issues interest subsidy to farmers for short term loans for agriculture, fisheries and animal husbandry.
- State Govt. is providing interest free loan to farmers from 2014-15.

- Government has allocated budget of Rs. 150 Crore for interest subsidy to 10.50 lakh farmers in the State.
- RCS office has developed the Computer Module with the help of NIC for proper implementation of interest subsidy scheme.
- There is an Online and Offline Module. Offline module where connectivity of internet is weak or unavailable in the LWE districts.
- The calculation of interest subsidy has become more accurate than manual method and subsidy amount would be directly credited to the ultimate borrower.(Being implemented)

- 
- By this process the Coop. societies would save skilled man-days as well as remuneration expenses involved in manual procedure.
 - The RCS office is looking for complete computerization of formation, management and business of PACS. This process will control the financial regulation of all PACS. The process is on.

Interest subsidy module

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ x राज्य के ब्याज अनुदान का x Sunil

coop.cg.gov.in

Apps Imported From IE Welcome to Apex B... Unicode <=> Kruti... Google Translate Sent Mail - cgapex.c... Other bookmarks

 **Credible Chhattisgarh विश्वसनीय छत्तीसगढ़** पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ब्लॉक 3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर 

होम हमारे बारे में सम्बद्ध संस्थाएं E-सहकारी संस्थाएं सांख्यिकी सूचना का अधिकार डाउनलोड गैलरी संपर्क सूत्र

विभागीय क्रियाकलाप

- सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960
- सहकारी सोसाइटी नियम 1962
- अधि सूचनाएं
- स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम 2012
- आयकर अधिनियम में सहकारी संस्थाओं का प्रावधान
- सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के निर्देश
- अंकिषण पैनाल
- विभाग द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण दस्तावेज
- शासकीय सेवकों की विभागीय जीव
- सहकारी संस्थाओं का ऑडिट कार्य
- कर्मचारियों के लिये सेवानियम
- छ. ग. की e-सहकारी संस्थाएं
- विभागीय क्रियान्वयन
- बजट आबंटन आहरण शेष की जानकारी
- Provisionally Selected Chartered Accountant & Firms**
- Release Date : 09 July 2015, Version : 1.2015.00008**
- सोसाइटी ब्याज अनुदान ऑफलाइन माइयूल सॉफ्टवेयर - डाउनलोड करें
- सोसाइटी ब्याज अनुदान ऑफलाइन माइयूल**



वर्ष:2014-15 सहकारी ब्याज मुक्त कृषि ऋण

नेतृत्व

 श. अनुराग सिंह मुख्यमंत्री, छ. ग.	 श. श्री दयाल दास बेहल मंत्री, सहकारिता, छ. ग.
---	---

नए संस्था के पंजीयन हेतु यहाँ क्लिक करें

सम्बंधित माइयूल

- सोसाइटी माइयूल
- पंजीयक माइयूल
- सोसाइटी सदस्य माइयूल
- अंकिषण माइयूल
- ब्याज माइयूल
- विभागीय कर्मचारी माइयूल
- विधि माइयूल
- फाइल ट्रेकिंग सिस्टम
- संगठक लॉग इन

सूचना निर्देशिका

- Release Date : 09 July 2015, Version : 1.2015.00006**
- सोसाइटी ब्याज अनुदान ऑफलाइन नया माइयूल सॉफ्टवेयर - डाउनलोड करें
- निर्वाचन के लिए आवेदन का पारुप डाउनलोड करें**
- Provisionally Selected Chartered Accountant & Firms**

महत्वपूर्ण लिंक्स

- Government of Chhattisgarh
- Reserve Bank of India
- RTI
- NABARD
- NCDC
- VAMNICOM
- National Cooperative Union of India

EN 9:34 PM 31/07/2015



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन

सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाइटी की जानकारी की एंटी ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाइटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सदस्यो की जानकारी ▶ **New** नए पंजी

Welcome :- HqLogin02

संक्षिप्त रिपोर्ट देखें

सदस्यो द्वारा लिए गए ऋण का विवरण

लिया गया ऋण कुल ब्याज दर के 0.00 अनुसार

PLR की स्थिति (बैंक की दर=0.00 + समिति मार्जिन=0.00)

केंद्र शासन से प्राप्त अनुदान= 0.00 राज्य शासन से प्राप्त अनुदान= 0.00

सत्र चुनें --चुनिये--

जिला चुनें select

विकासखंड चुनें

सोसाइटी का नाम चुनें

फसल का प्रकार खरीफ

देखें

(नोट : रिपोर्ट देखने से पूर्व रिफ्रेश बटन दबाएँ)

(जिन समितियों का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जाकर उपवर्ग चुने)

सत्र वार प्रविष्ट किसानों की संख्या खरीफ एवं रबी में किसानों की संख्या किसानों का पंजीयन क्र. जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन ऑफलाइन में एंटी करके डाटा भेजा गया है

किसान के ऋण की गलत प्रविष्टि

वह किसान जिसने कभी ऋण वापस नहीं किया

(नोट : रिपोर्ट देखने से पूर्व रिफ्रेश बटन दबाएँ)

(जिन समितियों का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जाकर उपवर्ग चुने)

सत्र वार प्रविष्ट किसानों की संख्या

खरीफ एवं रबी में किसानों की संख्या

किसानों का पंजीयन क्र. जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन ऑफलाइन में एंट्री करके डाटा भेजा गया है

क्र.	सोसाइटी	सत्र	किसानों की संख्या	कुल वितरित राशि	डिबीट करें
1	SOC6215	2014	476	12861023.28	देखें
				12861023.28	

क्र.	फसल का प्रकार	किसानों की संख्या	कुल वितरित राशि
1	खरीफ	476	12861023.28
			12861023.28

कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है



किसान के ऋण की गलत प्रविष्टि



वह किसान जिसने कभी ऋण वापस नहीं किया

खाता क्रमांक	ऋण वितरण दिनांक	आहरित/ जमा राशि	स्थिति	कुल बकाया राशि	कुल दिन	प्रोडक्ट	केंद्र शासन से अनुदान (5%)	राज्य शासन से अनुदान (7.50%)	केंद्र शासन से अनुदान (2%)	राज्य शासन से अनुदान (10.50%)	सदस्य द्वारा ब्याज	कुल ब्याज
1	सदस्य का नाम/क्र. : मकुन्दराम / 000 पिता/पति का नाम : बौरसिंग साहू											
4/60	21/07/2014	26000.00	Withdraw	26000.00	16	416000.00	56.99	85.48	0	0.00	0.00	142.47
4/60	06/08/2014	12676.40	Withdraw	38676.40	2	77352.80	10.60	15.89	0	0.00	0.00	26.49
4/60	08/08/2014	1590.00	Withdraw	40266.40	132	5315164.80	728.10	1092.16	0	0.00	0.00	1820.26
4/60	18/12/2014	40266.40	Return	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
योग				150	5808517.6	795.69	1193.53	0	0		1989.22	
2	सदस्य का नाम/क्र. : जहजीत / 0000030 पिता/पति का नाम : बंशीराम धव											



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़
सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन
सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाईटी की जानकारी की एंटी ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाईटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सदस्यो की जानकारी

Welcome :- HqLogin02

वर्षवार तथा जिलेवार ब्याज दर की जानकारी

क्र.	जिला	बैंक का ब्याज (PLR)	सोसाइटी का ब्याज (कमीशन)	कुल ब्याज
2014 - 2015				
1	रायपुर	9.50	3.00	12.50
2	महासमुंद	9.50	3.00	12.50
3	धमतरी	9.50	3.00	12.50
4	बलौदा बाजार	9.50	3.00	12.50
5	गरियाबंद	9.50	3.00	12.50
6	दुर्ग	9.50	3.00	12.50
7	राजनांदगांव	10.50	2.50	13.00
8	कवर्धा	10.50	2.50	13.00
9	बालोद	9.50	3.00	12.50
10	बेमेतरा	9.50	3.00	12.50
11	बिलासपुर	10.50	2.50	13.00



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़
सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन
सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाईटी की जानकारी की एंट्री ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाईटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सदस्यो की जानकारी
Welcome :- HqLogin02

सत्र 2014-2015 के लिए जिलेवार NCL (Normal Credit Limit) कृषि साख सीमा

क्रमांक	सत्र	जिला	सिंचित भूमि (प्रति हेक्टेयर) रूपयों में	असिंचित भूमि (प्रति हेक्टेयर) रूपयों में
1	2014	रायपुर	33000.00	30000.00
2	2014	महासमुंद	33000.00	30000.00
3	2014	धमतरी	33000.00	30000.00
4	2014	बलौदा बाजार	33000.00	30000.00
5	2014	गरियाबंद	33000.00	30000.00
6	2014	दुर्ग	33000.00	30000.00
7	2014	राजनांदगांव	33000.00	30000.00
8	2014	कवर्धा	33000.00	30000.00
9	2014	बालोद	33000.00	30000.00
10	2014	बेमेतरा	33000.00	30000.00
11	2014	बिलासपुर	33000.00	30000.00



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़
सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन
सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाईटी की जानकारी की एंटी ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाईटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सदस्यो की जानकारी

Welcome :- HqLogin02

जिले के ब्याज अनुदान का समितिवार रिपोर्ट

जिला चुर्ने रायपुर ▼ देखें

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	आहरित राशि	जमा राशि	केंद्र शासन से अनुदान (5%)	राज्य शासन से अनुदान (Due Date से पहले)	केंद्र शासन से अनुदान (2%)	राज्य शासन से अनुदान (Due Date के बाद)	सदस्य द्वारा ब्याज	कुल ब्याज
1	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, किरना-अभनपुर	1741	16112836.36	15839096.38	530896.34	796344.65	2946.57	15469.50	0.00	1345657.06
2	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पचेडा-अभनपुर	1499	13585653.00	13042079.50	339365.99	509048.77	792.2	4159.06	0.00	853366.02

Computerization of Cooperative Societies Audit

- Registrar Cooperative Societies' office has developed the Audit software for rectification of financial irregularities when the annual audit process is on.
- After computerization the time taken to audit is becoming less and its bringing in transparency in the audit process.
- The whole process of audit allotment has been computerized

Audit Module

Inbox (126) - pankaj26107 x पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ x समिति पंजीयन मॉड्यूल x Sunil

khadya.cg.nic.in/paddyonline/socregistration/Forms/Home.aspx

Apps Imported From IE Welcome to Apex B... Unicode <=> Kruti... Google Translate Sent Mail - cgapex.c... Other bookmarks

 पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़
सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन
सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाइटी की जानकारी की एंटी ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाइटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सदस्यो की जानकारी

Welcome :- HqLogin02

 कृपया अपने जिले के उन सोसाइटी का डाटा लॉक करवाएं जिनका रिपोर्ट सही आ रहा है, उसके पश्चात् अंकेक्षक डाटा लॉक करें

अंकेक्षक द्वारा समितियों के डाटा लॉक करने हेतु केवल संत्र 2014-2015 में खरीफ सीजन हेतु

अंकेक्षक द्वारा डाटा लॉक करना शेष है अंकेक्षक द्वारा डाटा लॉक कर दिया गया है

क्र.	सोसाइटी का नाम	विकासखंड	डाटा लॉक करें
1	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उरला	धरसीवा	क्लिक करें
2	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कनकी	तिल्दा	क्लिक करें
3	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, केन्द्री	अभनपुर	क्लिक करें
4	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हारी	तिल्दा	क्लिक करें
5	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खिलोरा	अभनपुर	क्लिक करें
6	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खोरपा	अभनपुर	क्लिक करें
7	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, टेकारी	धरसीवा	क्लिक करें
8	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, टेकारी	अभनपुर	क्लिक करें
9	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित, टोटग	अभनपुर	क्लिक करें

EN 12:57 PM 01/08/2015

ऑडिट कार्य संबंधी जानकारी(समस्त कार्यालय)		नए पंजीयन की जानकारी	
कुल संस्थाये	8537	आवेदन प्राप्त करना शेष	0
उपलब्ध ऑडिटर	विभागीय-366, अविभागीय-2	संगठक नियुक्त करें	0
अंकेक्षण आबंटन (विभागीय)	वर्ष 2010 मे 176, वर्ष 2011 मे 1075, वर्ष 2012 मे 1085, वर्ष 2013 मे 1409, वर्ष 2014 मे 155, वर्ष 2015 मे 2	संगठक से प्रतिवेदन प्राप्त करें	0
अंकेक्षण आबंटन (अविभागीय)	वर्ष 2012 मे 1, वर्ष 2013 मे 1	संगठक से प्राप्त प्रस्ताव	0
कुल अंकेक्षण हेतु आबंटित संस्थाये	वर्ष 2010 मे 177, वर्ष 2011 मे 1081, वर्ष 2012 मे 1088, वर्ष 2013 मे 1412, वर्ष 2014 मे 155, वर्ष 2015 मे 2	पंजीकृत संस्था	0
आबंटन से शेष संस्थाये	वर्ष 2010 मे 8360, वर्ष 2011 मे 7456, वर्ष 2012 मे 7449, वर्ष 2013 मे 7125, वर्ष 2014 मे 8382, वर्ष 2015 मे 8535	लंबित आवेदन (राज्य, विभाग, जिला)	5

कुन सोसाइटी	राज्य स्तर	रायपुर	दुर्ग	बिनासपुर	सरगुजा
8537	41	2083	1992	2296	1024

जगदनपुर
1101



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाईटी की जानकारी की एंटी ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाईटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सद

Welcome :- HqLogin02

ऑडिट कार्य हेतु सांख्यिकी रिपोर्ट :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	कुल समितियाँ	विभागीय अंकेक्षण हेतु आबंटित समितियाँ	अविभागीय (सी. ए. द्वारा) अंकेक्षण हेतु आबंटित समितियाँ	अंकेक्षण हेतु आबंटित कुल समितियाँ	अंकेक्षण हेतु इयु समितियाँ
1	कार्यालय उप पंजीयक, रायपुर	2011	806	20	0	20	786
2	कार्यालय उप पंजीयक, महासमुन्द	2012	485	62	0	62	423
		2013	485	62	0	62	423
3	कार्यालय उप पंजीयक, धमतरी	2011	342	259	0	259	83
		2012	342	160	0	160	182
		2013	342	168	0	168	174
4	कार्यालय उप पंजीयक, बलौदा बाजार	2012	270	43	0	43	227
		2013	270	19	0	19	251
		2011	724	55	0	55	669



पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन सहकारी संस्थाओं का पंजीयन मॉड्यूल

सोसाईटी की जानकारी की एंट्री ▶ शासकीय सेवको की जानकारी ▶ आडिट कार्य ▶ सोसाईटी रिपोर्ट ▶ **New** शासकीय सेवको / ऑडिट कार्य की रिपोर्ट ▶ सद
Welcome :- HqLogin02

प्रविष्टकर्ता कार्यालय का नाम चुने	:	<input type="text" value="सभी"/>
प्रथम चरण (ऑडिटर की नियुक्ति) की प्रविष्टियों कि कुल संख्या	:	366
द्वितीय चरण (ऑडिटर तथा सोसायटी मेंपिंग) की प्रविष्टियों कि कुल संख्या	:	3915
तृतीय चरण (ऑडिट कार्य प्रारंभ) की प्रविष्टियों कि कुल संख्या	:	19427
चतुर्थ चरण (आपत्ती की प्रविष्टी) की प्रविष्टियों कि कुल संख्या	:	1615

नोट : प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु स्वयं के कार्यालय की यूजर आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग करे तत्पश्चात तृतीय एवं चतुर्थ चरण के कार्य हेतु संबंधित ऑडिटर की आई डी तथा 123 प्ररंभिक पासवर्ड से पुनः लागिन कर कार्य करे।

The way forward—

- Financial Inclusion has to be undertaken along with better regulation.
- Real aim of Financial Inclusion can be achieved when all forms of subsidy can be monetized and the financial infrastructure of Post Offices, Co-operative Societies and Banks can be used for the poor.
- All Financial Institutions to be in sync and real time information to be available to prevent fraud and illegal money operation.